

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-25102024-258240
SG-DL-E-25102024-258240असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 235
No. 271]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946	[N. C. T. D. No. 235

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Je foHkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

Ok- l a 1@31@1127@, y l h@LFkk-@HkrhZ fu; e@b\kbt@2022@4056.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा. सं. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सरकार की दिनांक 12.03.2004 की अधिसूचना फा. सं. 3(39)/2/96—एलसी/स्था0/814 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “fo | r fujh{kd** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1- l f{klr 'kh"kd , oa i kj Hk %&

(i) इन नियमों को “विद्युत निरीक्षक” भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2- vUq z kx%&ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. i nka dh l a[; k] oxh{dj .k rFkk oru efV/Dl e@Lrj%&पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

- 4- HkrhZ i) fr] vk; q l hek] ; kX; rk, a bR; kfn%उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5- v; kX; rk%वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- 6- श्रकFky djus dh श्रkDr%जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 7- cpko%इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vud iph&I

1.	i nuke	:	विद्युत निरीक्षक
2.	i nk dh l a[; k	:	02* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	oxhZdj.k	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-‘क’
4.	oru efVdI eLrj	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रुपये 67700-208700/-)
5.	D; k p; u in gS vFkok xj p; u in	:	चयन
6.	l h/kh HkrhZ okys mEehnokjka ds fy, vk; q l hek	:	लागू नहीं
7.	l h/kh HkrhZ okys mEehnokjka l s vi f{kr 'kF{k d rFkk vU; ; kX; rk, a	:	लागू नहीं
8.	D; k l h/kh HkrhZ okys mEehnokjka ds fy, fu/kkFj r 'kF{k d ; kX; rk , oa vk; q l hek i nkUufr okys mEehnokjka i j Hkh ykxw gksxhA	:	लागू नहीं
9.	i fjoh{kk dh vof/k] ; fn dkbZ gS	:	लागू नहीं
10.	HkrhZ dh i) fr] l h/kh HkrhZ }kjk ; k i nkUufr }kjk ; k i frfu; fDr@vkeyu }kjk rFkk fofHku i) fr; ka }kjk Hkjs tkus okys fjDr i nk d k i fr'kr	:	पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा
11.	; fn i nkUufr@i frfu; fDr@vkeyu }kjk HkrhZ gkuh gks rks xM ftul s i nkUufr@i frfu; fDr@vkeyu fd; k tkuk gS	:	i nkUufr % ग्रेड में पाँच (05) वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रुपये 56100-177500/-) में विभागीय उप-विद्युत निरीक्षक तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान

	<p>से विद्युत अभियांत्रिकी उपाधि धारण करने वाले या इसके समकक्ष एवं उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम-से-कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>i f r f u ; (Dr %\k b l I V h l h % %&</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त या वैधानिक संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधिकारी :</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले :</p> <p>i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि या इसके समकक्ष; तथा</p> <p>ii. उम्मीदवार विद्युत अभियांत्रिकी के कार्य में कम-से-कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से कार्यरत हो, जिसमें से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्यशाला या विद्युत के उत्पादन या संचरण या वितरण में, अथवा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रशासन में उत्तरदायित्व के किसी पदों में कम-से-कम एक वर्ष कार्य किया हो।</p> <p>V h i %& जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।)</p> <p>(प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार (04) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)</p>
--	--

		द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	; fn dkbz foHkxh; i nklufr l febr gk] rks : bl dh l j]puk D; k gA	foHkxh; i nklufr l febr %i nklufr ds fopkj kFkZ 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) – √/; {k 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव – l nL; 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) – l nL; Vhi %& यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	os ifjflFkfr; k] ftuea Hkrh ds fy, l Bk yk d l ok vk; kx dk ijke'k fy; k tkuk gA	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय चांदना, उपायुक्त श्रम (प्रशा.)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th October, 2024

F. No. 1/31/1127/LC/Estt./Rectt.Rules/EI/2022/4056.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. F.3(39)/2/96-LC/Estt./814 dated 12.03.2004 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Electrical Inspector** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:

- These rules may be called “Electrical Inspector” Recruitment Rules, 2024.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. - The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualifications:

- No person,
- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.

7. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE - I

1.	Name of post	Electrical Inspector
2.	No. of Posts	02* (2024) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non- selection post	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any	Not Applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Promotion failing which by Deputation (ISTC)
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Deputy Electrical Inspector in Level – 10 (Rs. 56100-177500) of Pay Matrix with five (05) years regular service in the grade and possessing Degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution and having successfully completed at least 2 weeks training as prescribed by the Competent Authority.</p> <p>Deputation (ISTC):</p> <p>Officers under the Central Government/State Government/ Union Territories/Autonomous or Statutory Organization/ PSUs/Universities/Recognized Research Institutions:</p> <p>(a)</p> <p>i. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>ii. With 5 years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-10 of pay matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>i. Degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution; and</p> <p>ii. Candidate has been regularly engaged for a period of at least five years in the practice of electrical engineering,</p>

		<p>of which not less than one year has been spent in an electrical or mechanical engineering workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and rules thereunder, in a position of responsibility.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)</p> <p>(Period of Deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or another organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 04 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application)</p>
12.	If a Departmental Promotion Committee, exists, what is its composition	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Addl. Chief Secretary (Home) /Pr. Secretary (Home)-Chairperson 2. Administrative Secretary concerned-Member 3. Special/Additional Secretary (UD)-Member <p>Note: <i>Senior Most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.</i></p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn.)